



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 302] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 21, 1977/भाद्र 30, 1899

No. 302] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 21, 1977/BHADRA 30, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

(TEA CONTROL)

New Delhi, the 21st September 1977

G.S.R. 613(E).—The following draft of certain rules further to amend the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (d) of sub-section (2), of section 49 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of 40 days

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said draft amendment before the date so specified will be considered by the Central Government

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Amendment Rules, 1977.

(2) They shall come into force

2. In column 8 of the Schedule to the Tea Board (Recruitment and Conditions of Service of Officers appointed by Government) Rules, 1971, against the post of Secretary, for the heading "By Promotion" and the entry thereunder, the following shall be substituted, namely —

"By Promotion

Controller of Licensing and the Assistant Secretary, Tea Board, having minimum of 5 years' service in the respective grade and Special Officer for North West India".

[No K. 12012(1)/77-Plant(A)]

MRS. KOMAL ANAND, Dy Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना

(चाय नियंत्रण)

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 613 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चाय बोर्ड, (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1971 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियम बनाने का प्रस्ताव करती है। उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है, जिनके उममे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि चालीम दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा ,

इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व यदि उक्त प्रारूप संशोधन की बाबत किसी भी व्यक्ति से कोई भी आक्षेप या सुझाव प्राप्त होंगे तो केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1 (1) इन नियमों का नाम चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे।

2. चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों) नियम, 1977 की अनुसूची के स्तम्भ 8 में, सचिव के पद के सामने, शीर्ष "प्रोन्नति द्वारा" और तत्कीन प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् —

“प्रोन्नति द्वारा

अनुभाषन नियंत्रक और सहायक सचिव, चाय बोर्ड, जिसने अपनी अपनी श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष सेवा की हो और उत्तर पश्चिम भारत का विशेष अधिकारी।”

[सं० के 12012 (1)/77-प्लॉट (ए)]

श्रीमती कोमल आनन्द, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

